



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित=

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 20—अप्रैल 26, 2019 (चैत्र 30, 1941)=
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 20—APRIL 26, 2019 (CHAITRA 30, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। =
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1=

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

गृह मंत्रालय

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2019

सं. ओ दो-4000/2014-कार्मिक डीए-6—सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. सोनाली भट्टाचार्या, चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेंट), ईरला-10425, 241 बटा., केरिपुबल द्वारा दिनांक 07/03/2019 (पूर्वाह्न) को अपना चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, इनका नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् 07/03/2019 (पूर्वाह्न) से हटाया जाता है।

बी.एस. गुजराल
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ दो-4114/2017-कार्मिक डीए-6—एक माह के सेवा समाप्ति नोटिस जो कि दिनांक 20/09/2018 को जारी किया गया, जो कि डॉ. रवि शंकर प्रसाद, विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी (उप कमाण्डेंट), ईरला-11217, कम्पोजिट अस्पताल, केरिपुबल, मुजफ्फरपुर को

दिनांक 12/11/2018 को प्राप्त हुआ, जिसकी समाप्ति हो जाने के फलस्वरूप, उनकी सेवाएं दिनांक 11/12/2018 (अपराहन) से समाप्त कर दी गई हैं। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 11/12/2018 (अपराहन) से निकाला जाता है।

बी.एस. गुजराल
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 5 अप्रैल 2019

सं. ए छः-01/2019-कार्मिक (स.क.)—राष्ट्रपति जी ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमान्डेंट) परीक्षा 2016 एवं 2017 के चयनित अभ्यर्थियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक कमान्डेंट के रूप में वेतन मैट्रिक्स स्तर 10 में अगले आदेश तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की सम्पूर्ण नफरी के विरुद्ध अस्थाई तौर पर प्रावधिक नियुक्ति प्रदान करते हैं:—

| क्र.सं. | रोल नं. | अभ्यर्थी का नाम | रिपोर्ट करने की तिथि |
|--|---------|---------------------------|-----------------------|
| सी.ए.पी.एफ. (सहायक कमान्डेंट) परीक्षा-2016 | | | |
| 1 | 16156 | अतुल नागर | 11-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 2 | 0003681 | अजीमुल हक | 11-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 3 | 0125557 | तरुण खजूरिया | 16-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 4 | 35272 | अजीतकुमार आणा क्षीरसागर | 12-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 5 | 1284 | दिग्विजय सिंह | 16-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 6 | 142235 | गवली गणेश हरिदास | 14-02-2019 (अपराहन) |
| 7 | 0037187 | अनिल कुमार मल्लेशी जाधव | 11-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 8 | 247288 | तरंग बंसल | 11-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 9 | 018877 | प्रशस्त बलिजेपल्ली वेलुगु | 11-02-2019 (अपराहन) |
| 10 | 86024 | खाडे मितेश अर्जुन | 11-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 11 | 001480 | कु० जंगम गीता श्रीजा | 11-02-2019 (अपराहन) |
| 12 | 174871 | शाह मो० इमरान मो० इरफ़ान | 15-02-2019 (अपराहन) |
| 13 | 145419 | अनिमेष कुमार ओझा | 11-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 14 | 146351 | भार्गव कुमार थादेम | 13-02-2019 (अपराहन) |
| 15 | 0147798 | मुदस्सर अली | 11-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 16 | 41644 | दुर्धवले विशाल एकनाथ | 23-02-2019 (अपराहन) |
| 17 | 175162 | विनय कुमार दूबे | 15-03-2019 (अपराहन) |
| सी.ए.पी.एफ. (सहायक कमान्डेंट) परीक्षा-2017 | | | |
| 18 | 0043830 | कु० कोमलप्रीत कोर | 11-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 19 | 0139050 | शिहाबुदीन के० ऐ० | 13-02-2019 (अपराहन) |
| 20 | 0002767 | पाटिल रुपेशसिंग रमेश | 11-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 21 | 0047384 | कु० दीपाली | 11-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 22 | 0001281 | सिद्धार्थ सिंह | 11-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 23 | 0191468 | जी० किरन कुमार | 11-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 24 | 0003410 | पहारे विष्णु सुखदेव | 15-02-2019 (अपराहन) |
| 25 | 0101760 | ऋषभ कुमार शर्मा | 16-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 26 | 0115009 | विवेकानंद प्रसाद | 16-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 27 | 0025929 | कु० मोनिका भाटिया | 11-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 28 | 0001912 | जितेंदर कुमार बंसल | 12-02-2019 (पूर्वाहन) |

| | | | |
|----|---------|------------------------|-----------------------|
| 29 | 0128237 | नितीश एन० | 11-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 30 | 0077613 | अंशुमन सिंह | 11-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 31 | 0104802 | अलन अगस्टिन | 13-02-2019 (अपराहन) |
| 32 | 0027300 | भुतडा कृष्णा मधुसूदन | 15-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 33 | 0005828 | आनंद कुमार यादव | 13-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 34 | 0052371 | यशवीर सिंह | 11-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 35 | 0231722 | बिस्वजीत शाहु | 11-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 36 | 0005923 | रविन्द्र प्रताप सिंह | 12-02-2019 (अपराहन) |
| 37 | 0270206 | अंकुर कुमार | 13-02-2019 (अपराहन) |
| 38 | 0007215 | नवजोत सिंह | 15-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 39 | 0062034 | सत्यकेतु | 13-02-2019 (अपराहन) |
| 40 | 0134641 | काम्बले विनायक काशीनाथ | 12-02-2019 (पूर्वाहन) |
| 41 | 253443 | मो० अलताब हुसैन | 03-03-2019 (अपराहन) |
| 42 | 0262741 | अर्जुन लाल | 17-03-2019 (अपराहन) |

2. उक्त अभ्यर्थियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी, कादरपुर (गुडगांव) में प्रशिक्षण के लिए उनके नामों के समक्ष दर्शाई गई तिथि को रिपोर्ट कर दिये हैं तथा उनके द्वारा उसी तिथि से पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

बी.एस. गुजराल
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 मार्च 2019

सं. ई-16013/प्रति-भा.पु.से./मनि/2017/कार्मिक-2/570—गृह मंत्रालय के ज्ञा. सं. आई-21023/13/2019-भा.पु.से.III दिनांक 18/03/2019 के अनुसरण में प्रतिनियुक्ति से केन्द्रीय जांच ब्यूरो में प्रत्यावर्तन होने पर, श्री अनुराग, भा.पु.से. (टीआर: 1994), महानिरीक्षक/केऔसुब जिन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के रूप में शामिल किया गया है, ने दिनांक 26/03/2019 (अपराहन) को महानिरीक्षक, केऔसुब मुख्यालय, नई दिल्ली का पदभार छोड़ दिया।

हस्ता./—अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

सं. ई-16015/एस.डी.डी.एस.—भा.पु.से./2013/कार्मिक-2/571—राष्ट्रपति, श्री एस देव दत्ता सिंह, भा.पु.से. (ओडिसा: 1998) को महानिरीक्षक पद में पदोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 27/03/2019 (पूर्वाहन) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पे मैट्रिक्स के पे लेवल-14 (Pay Level-14 in the Pay Matrix) में नियुक्त करते हैं।

अधिकारी द्वारा पदोन्नति पर दिनांक 27/03/2019 (पूर्वाहन) को महानिरीक्षक (कार्मिक), केऔसुब मुख्यालय, नई दिल्ली का पदभार ग्रहण कर लिया गया है।

हस्ता./—अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

दिनांक 29 मार्च 2019

सं. ई-16015/अधिसूचना-प्रत्या/2018/कार्मिक-2/610—प्रतिनियुक्ति विभाग से मूल विभाग में प्रत्यावर्तन होने पर केऔसुब/इकाई के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से केऔसुब की नफरी में लिया गया है:—

| क्रम सं. | अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्रीमति | पद | प्रतिनियुक्ति विभाग का नाम | केऔसुब की नफरी में लिए जाने की तारीख | केऔसुब में पदभार ग्रहण करने की तारीख व इकाई का नाम |
|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|
| 01 | सुचित त्यागी | कमान्डेन्ट/कार्य. | एन एस जी | 01/11/18 (पूर्वाहन) | 21/01/19 (पूर्वाहन) एसएचईपी सलाल |

| क्रम सं. | अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्रीमति | पद | प्रतिनियुक्ति विभाग का नाम | केओसुब की नफरी में लिए जाने की तारीख | केओसुब में पदभार ग्रहण करने की तारीख व इकाई का नाम |
|----------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|--|
| 02 | हरि ओम गांधी | वरि. कमान्डेन्ट/कार्य. | एन सी बी | 14/12/18 (पूर्वाह्न) | 25/02/19 (पूर्वाह्न) यूसीएल जादूगुडा |
| 03 | दीपक राय | उप कमान्डेन्ट/कार्य. | एन एस जी | 01/12/18 (पूर्वाह्न) | 05/02/18 (पूर्वाह्न) निसा हैदराबाद |
| 04 | विश्वनाथन एस | उप कमान्डेन्ट/कार्य. | एन एस जी | 01/12/18 (पूर्वाह्न) | 18/02/18 (पूर्वाह्न) बीसीसीएल धनबाद |

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय
(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 29 मार्च 2019

सं. 5/1/2019-सी.पी.आई.—फरवरी, 2019 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 307 (तीन सौ सात) अंकों के स्तर पर स्थिर रहा।

अमृत लाल जांगिड़
उप निदेशक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-40001, दिनांक 02 अप्रैल 2019

सं. एईसी-1(1)/19/4272—इस विभाग की दिनांक 14 फरवरी, 2019 की अधिसूचना सं. एईसी-1 (1)/19/2130 में आंशिक संशोधन करते हुए, परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) के गठन को अधिसूचित करने के लिए, राष्ट्रपति, डॉ. अजित कुमार मोहंती, निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को परमाणु ऊर्जा आयोग के नए सदस्य के रूप में दिनांक 27 मार्च, 2019 से नियुक्त करते हैं।

परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) का गठन वर्ष 2019 की शेष अवधि और/अथवा भावी आदेश तक निम्नानुसार होगा:

- | | | | |
|----|--|---|----------------|
| 1. | श्री के. एन. व्यास सचिव, भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग | - | अध्यक्ष (पदेन) |
| 2. | श्री नृपेन्द्र मिश्र प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव | - | सदस्य |
| 3. | श्री अजीत कुमार डोवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार | - | सदस्य |
| 4. | श्री प्रदीप कुमार सिन्हा मंत्रिमंडल सचिव | - | सदस्य |
| 5. | श्री विजय केशव गोखले विदेश सचिव | - | सदस्य |
| 6. | श्री गिरीश चंद्र मुर्मु सचिव, व्यय विभाग | - | सदस्य |
| 7. | सुश्री सुधा कृष्णन सचिव, भारत सरकार | - | सदस्य (वित्त) |
| 8. | डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन पूर्व अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग | - | सदस्य |

| | | | |
|-----|--|---|-------|
| 9. | प्रो. पी. रमा राव पूर्व सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | - | सदस्य |
| 10. | डॉ. अनिल काकोडकर पूर्व अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग | - | सदस्य |
| 11. | डॉ. आर. बी. ग्रोवर एमिरेटिस प्रोफेसर एवं भूतपूर्व कुलपति होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान | - | सदस्य |
| 12. | डॉ. के. कस्तूरीरंगन, पूर्व अध्यक्ष, अंतरिक्ष आयोग एवं पूर्व सदस्य, योजना आयोग | - | सदस्य |
| 13. | डॉ. अजित कुमार मोहंती, निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र | - | सदस्य |

अरुण श्रीवास्तव
सचिव, परमाणु ऊर्जा आयोग

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय)

प्रारूप एसटीके 6

सार्वजनिक सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में :

पुणे-411044, दिनांक 25 अप्रैल 2019

No. ROC/CP/STK6/18/2019/77—

| अनु.क्र. | सीआईएन | कम्पनी का नाम |
|----------|-----------------------|---|
| 1 | U01403PN2000PTC015093 | ग्लोबल ऐरो एगो & ओर्चाईस प्राइवेट लिमिटेड |
| 2 | U15432MH1979PTC021287 | एटलस कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 3 | U22300PN2017PTC170649 | सयाली'स थर्ड ऑय विज़न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 4 | U26990PN2016OPC165096 | सस्टेनेबल इंफ्राकन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड |
| 5 | U40300PN2015PTC156907 | किंग कुबेर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड |
| 6 | U45200PN2010PTC135311 | ब्लूबेरी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड |
| 7 | U45202MH1996PTC101248 | गोपिसोन्स डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 8 | U50400PN2016PTC167780 | श्री पवित्रम ऑटोवोल्ड प्राइवेट लिमिटेड |
| 9 | U52590PN2017PTC173949 | अलिक्स ट्रेडिंग & सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 10 | U70102PN2005PLC020342 | फिनेसे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड |
| 11 | U72200PN2014PTC153525 | कैसेर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 12 | U72200PN2015PTC154587 | इन्टुइरेक्स सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 13 | U72900PN2016PTC157942 | बीजस्क्रिप्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |

| अनु.क्र. | सीआईएन | कम्पनी का नाम |
|----------|-----------------------|---|
| 14 | U72900PN2016PTC165069 | इसानी नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 15 | U72900PN2017PTC169701 | मुंडी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 16 | U74900PN2010PTC137094 | पाटलियाम ट्रेनिंग ग्रूमिंग & डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 17 | U74999PN2016PTC165729 | कबलेटिमे सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 18 | U74999PN2016PTC167012 | कालबृन्त सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |

(1) इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को ऊपर उल्लिखित कंपनियों से कंपनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त किया है कि वे उनकी कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारबार नहीं कर पायी है और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कंपनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

(2) तदनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार से ऊपर उल्लिखित कंपनियों का नाम हटाने का प्रस्ताव करता है।

(3) यदि किसी को रजिस्ट्रार से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

पी. एस. खांडे
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

फार्म सं. एसटीके 7

कंपनी का नाम हटाने और खत्म करने के संबंध में सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप धारा (5) और कंपनी (कंपनी पंजीयक के रजिस्ट्रार से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 और निम्नलिखित कंपनियों के मामले से संबन्धित

एरणाकुलम-682021, दिनांक 26 मार्च 2019

सं. आरओसी(के)/एस 248(2) एसटीके-7/850/2019 (सूचना सं. 851)—इस कार्यालय की सूचना सं. 17363 तारीख 27.06.2018 और विविध दिनों के आवेदन (फार्म एसटीके 2) के संदर्भ में और निम्न लिखित एसआरएन को जारी फार्म एसटीके 6 में जारी सूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना प्रकाशित किया जाता है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम कंपनियों के पंजीयक के रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उसे खत्म कर दिया गया है:—

| क्रमांक | कंपनी का नाम | सी आई एन | एस आर एन |
|---------|---|-----------------------|-----------|
| 1 | पंकजकस्तूरी प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड | U70100KL2012PTC030876 | G55012934 |
| 2 | लांट्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | U29305KL2013PTC035036 | G55003438 |
| 3 | स्टार केयर इंश्योरेंस सर्विसेस लिमिटेड | U66030KL2010PLC025352 | G54799135 |
| 4 | लैंडीस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड | U45200KL2014PTC037119 | G54558929 |
| 5 | सनबीजिनेस रेफ्रीगेरेशन & एयर कंडीशनिंग प्राइवेट लिमिटेड | U31900KL2012PTC031614 | G54362579 |
| 6 | सिनियोला डिजिसेन्स प्राइवेट लिमिटेड | U92120KL2013PTC034101 | G54323217 |
| 7 | उपीएलई आर ब्रदर्स डेकोर्स एंड प्रोडक्शन हाऊस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | U74900KL2013PTC035015 | G54301858 |
| 8 | बिरविन असोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड | U70109KL2014PTC037431 | G54136064 |
| 9 | पेट्रोटीट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड | U11100KL2015PTC038032 | G54100755 |
| 10 | सैन्सीऔरा टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड | U72900KL2015PTC038109 | G54026042 |

| क्रमांक | कंपनी का नाम | सी आई एन | एस आर एन |
|---------|--|-----------------------|-----------|
| 11 | होलडेक्स फारमा प्राइवेट लिमिटेड | U24239KL2009PTC023774 | G53713764 |
| 12 | सांता फारमा जेनेरेक्स प्राइवेट लिमिटेड | U24233KL2008PTC023320 | G53707840 |
| 13 | स्पानलेक्स सोलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड | U72900KL2015PTC038277 | G53539235 |
| 14 | ज़िजिमिलिया होटल्स एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | U55101KL2008PTC022217 | G53511846 |
| 15 | ट्रांस वर्ल्ड मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | U51101KL1999PTC013372 | G53422432 |
| 16 | मैक्समेडिक्स प्रोफेशनल सोलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड | U74910KL2004PTC017723 | G53338158 |
| 17 | बालको एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | U24111KL2011PTC028668 | G53320842 |
| 18 | आर्ट ट्रेड एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड | U51909KL2013PTC034302 | G53316063 |
| 19 | एस2 इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड | U74200KL2012PTC030692 | G53308334 |
| 20 | जेकब एंटरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड | U51505KL2003PTC016155 | G53089199 |
| 21 | दोहा कोटिंग्स एंड कोन्ट्राक्टर्स(इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | U74990KL2011PTC027658 | G51760346 |
| 22 | एस2ए होम्स प्राइवेट लिमिटेड | U45200KL2016PTC039846 | G51667939 |
| 23 | तेक्केवीटिल फुटवीयर्स प्राइवेट लिमिटेड | U51312KL2010PTC026910 | G51536480 |
| 24 | एक्टइंडिया मल्टिफार्म प्राइवेट लिमिटेड | U01400KL2016PTC039934 | G51373322 |
| 25 | गोल्डनब्रूक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड | U45200KL2013PTC034408 | G50999929 |
| 26 | रीसनन्स रिसर्च एंड टेक्निकल सोलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2013PTC034488 | G50959089 |
| 27 | ह्यू एंड टिट एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड | U74999KL2016PTC045624 | G50558972 |
| 28 | सोल्वीसी कंसल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | U63040KL2006PTC019206 | G50425677 |
| 29 | कोलका डेकोर्स एंड इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड | U74994KL2006PTC019042 | G50366541 |
| 30 | ग्लोबल डाईविंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड | U80302KL2014PTC036024 | G50004845 |
| 31 | प्राइमरॉन रीटेल प्राइवेट लिमिटेड | U55101KL2013PTC033771 | G49777519 |
| 32 | डाटाफार्मर्स टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2013PTC035687 | G49713357 |
| 33 | फरादुस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2013PTC033039 | G49593403 |
| 34 | स्पॉटमेडिसिन फारमा प्राइवेट लिमिटेड | U51397KL2015PTC038230 | G49398159 |
| 35 | मरियन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड | U65992KL2012PTC032389 | G49282007 |
| 36 | अमेरिकन इंजीनरींग प्राइवेट लिमिटेड | U33130KL2004PTC017629 | G49015878 |
| 37 | याया फिलक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड | U92130KL2016PTC039901 | G48834899 |
| 38 | श्री गणेश मिल्स प्राइवेट लिमिटेड | U36101KL1951PTC001662 | G48789119 |
| 39 | लिस्पन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड | U24230KL2010PTC025854 | G48656284 |
| 40 | अदत्त कुरीस प्राइवेट लिमिटेड | U65992KL2006PTC020053 | G48620561 |
| 41 | पेज 1 टेकनो प्रिंशियन प्राइवेट लिमिटेड(ओपीसी) | U72200KL2014OPC036737 | G48581755 |
| 42 | सतसुमा होटल्स एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | U55101KL2013PTC035447 | G48571087 |
| 43 | सैमसन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | U74900KL2011PTC027780 | G48487045 |
| 44 | शारोन लैंडस्केपर्स एंड इंटीरियर डिजाईनर्स प्राइवेट लिमिटेड | U74900KL2012PTC033011 | G48452486 |
| 45 | ज्योतिशिवम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | U63040KL2013PTC034925 | G48194179 |
| 46 | इन्नोविशन ह्यूमन रिसोर्स सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड | U80900KL2011PTC027923 | G48107213 |
| 47 | स्टारअलेयन्स डिस्ट्रीब्यूशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | U52100KL2009PTC024937 | G48088082 |
| 48 | मारीनो इंटर ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड | U51900KL2013PTC035559 | G48042626 |
| 49 | ओकीबान सोफ्टवेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2010PTC026203 | G47944277 |
| 50 | राइस एंड पल्सेस ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | U51211KL2013PTC034538 | G47904230 |
| 51 | इनसोल मेनेजमेंट कंसल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | U74140KL2013PTC033080 | G47836648 |
| 52 | क्यू आर पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड | U22110KL1991PTC006119 | G47774526 |
| 53 | चेन्ननकारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस प्राइवेट लिमिटेड | U85110KL2013PTC035600 | G47514179 |
| 54 | विल्ला मेडिकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड | U85100KL2015PTC038180 | G47268230 |

| क्रमांक | कंपनी का नाम | सी आई एन | एस आर एन |
|---------|--|-----------------------|-----------|
| 55 | पियो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड | U45202KL2008PTC021708 | G47226360 |
| 56 | अर्कस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड | U45200KL2014PTC036582 | G47099791 |
| 57 | सीपीएस इनवेंटेड प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | U31200KL2013PTC033375 | G47026646 |
| 58 | केसेल्स एंड क्रिब्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड | U74900KL2013PTC035543 | G46614525 |
| 59 | पुलरी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड | U01407KL2016PTC040366 | G46540597 |
| 60 | ब्रैनस्मार्ट कंसल्टंसी प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2014PTC035958 | G46522215 |
| 61 | आटोफ लिफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | U52390KL2015PTC037888 | G46488748 |
| 62 | रॉयल नेस्ट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड | U70100KL2013PTC033201 | G46415055 |
| 63 | डुसिड टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2009PTC024911 | G46313656 |
| 64 | मूलवकल रीयल्टर्स एंड होस्पिटालिटी प्राइवेट लिमिटेड | U70100KL2008PTC022159 | G46077699 |
| 65 | वल्लियरा रीयल्टर्स एंड होस्पिटालिटी प्राइवेट लिमिटेड | U70100KL2008PTC022080 | G46074415 |
| 66 | कोट्टमम रीयल्टर्स एंड होस्पिटालिटी प्राइवेट लिमिटेड | U70100KL2008PTC022238 | G46073722 |
| 67 | कोडुवल्ली रीयल्टर्स एंड होस्पिटालिटी प्राइवेट लिमिटेड | U70100KL2008PTC022156 | G46073110 |
| 68 | कट्टित्तरा रीयल्टर्स एंड होस्पिटालिटी प्राइवेट लिमिटेड | U70100KL2008PTC022157 | G46072062 |
| 69 | पीडबल्यूपी कुयसर टूर्स एंड ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड | U63040KL2005PTC018732 | G46043980 |
| 70 | एच2टी हेल्थ इन्फो प्राइवेट लिमिटेड | U85190KL2011PTC030026 | G45789609 |
| 71 | प्रोपस जियो कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड | U74990KL2013PTC033160 | G45787868 |
| 72 | श्री राज मार्केट सोल्यूशन्स(इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | U51909KL2009PTC023724 | G45596699 |
| 73 | मिडवे मार्केटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | U51395KL2013PTC034420 | G45513264 |
| 74 | मंजु मार्केटिंग सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड | U52335KL2007PTC020199 | G45473436 |
| 75 | अदालिस टेकनॉ लैब्स प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2014PTC037296 | G45328911 |
| 76 | पावरडोट कंप्यूटर सर्वीसेस एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL1996PTC010315 | G45258241 |
| 77 | पल्लिकमालिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड | U45201KL2008PTC022588 | G45193844 |
| 78 | लिसिट चिट्स प्राइवेट लिमिटेड | U65992KL2011PTC028242 | G45098118 |
| 79 | राइट चोईससुपर स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड | U51390KL2007PTC021284 | G45073202 |
| 80 | ओकिंड पवार कन्वर्शन्स प्राइवेट लिमिटेड | U51505KL2001PTC014545 | G44927325 |
| 81 | रुस्टर ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड | U51900KL2011PTC029947 | G44902526 |
| 82 | नंदनम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड | U65992KL2004PTC017703 | G44717502 |
| 83 | इनास्साई सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2013PTC034637 | G44581510 |
| 84 | हाईलैंड एगो फर्म्स प्राइवेट लिमिटेड | U01407KL2013PTC035048 | G44543486 |
| 85 | एटलस स्टेशनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | U21000KL2012FTC031120 | G44431351 |
| 86 | कम्यूनिटी इंजीनीरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड | U29211KL2000PTC014320 | G44216869 |
| 87 | कम्पलीट कंप्यूटर टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL1999PTC013149 | G44125391 |
| 88 | कोडुवायूर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड | U55101KL2007PTC021545 | G43988526 |
| 89 | आहार कैटरिंग सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड | U55204KL2013PTC033944 | G43985381 |
| 90 | हर्म्या डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड | G45200KL2013PTC034570 | G43917103 |
| 91 | स्ट्रेटलाइन एचआर कंसल्टंट्स प्राइवेट लिमिटेड | U74910KL2012PTC031300 | G43831130 |
| 92 | नेटवर्क बिलबोर्ड्स एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड | U74300KL2012PTC032782 | G43792399 |
| 93 | मैजिक स्ट्रोक्स इन्फोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड | U72900KL2012PTC030212 | G43783224 |
| 94 | कल्वेरिन इन्फोटेक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2011PTC030127 | G43588714 |
| 95 | हॉलिडे कोनूरान कॉमशियल कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड | U45200KL2013PTC035139 | G43485945 |
| 96 | डीजिसिस्टम टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड | U72900KL2014PTC036652 | G43473537 |
| 97 | वेरिटे सेंसर टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड | U32109KL2012PTC032778 | G43465798 |
| 98 | कोडनोईड टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2013PTC033718 | G43400910 |

| क्रमांक | कंपनी का नाम | सी आई एन | एस आर एन |
|---------|--|-----------------------|-----------|
| 99 | अबजो प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड | U25209KL1994PTC008120 | G43400605 |
| 100 | आक्युफास्ट बिल्लिंगएंड कस्टमर सर्वीसेसप्राइवेट लिमिटेड | U74900KL2009PTC025266 | G43287903 |
| 101 | अल मेर्सल कोन्ट्राक्टिंग प्राइवेट लिमिटेड | U70100KL2012PTC032729 | G43282722 |
| 102 | केरला एड्युकेशनल वैचर्स लिमिटेड | U80301KL2011PLC029264 | G43280775 |
| 103 | हरितगिरी टूरिस्मस इंडिया लिमिटेड | U63040KL1998PLC012651 | G43280213 |
| 104 | सीटीओसी हौलवेल शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड | U63090KL2007PTC020676 | G43277789 |
| 105 | रॉयल टेन्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड | U52322KL2005PTC018248 | G43245836 |
| 106 | पेंटा कारटेन्स प्राइवेट लिमिटेड | U21022KL1988PTC005145 | G43163682 |
| 107 | आइडिया टूरिस्म एंड वोएजस प्राइवेट लिमिटेड | U63040KL2011PTC029960 | G43085257 |
| 108 | फ्रीमान वाईट हेल्थकेयर डिजाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2001PTC014777 | G43083039 |
| 109 | रेबार्लॉजिक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड | U72900KL2016PTC039980 | G43049642 |
| 110 | अड्वान्ड टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड | U51397KL2012PTC031897 | G43041805 |
| 111 | मैथ्यू फिलिप कंसल्टन्ट्स एंड टूर ओपरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड | U74140KL2009PTC023850 | G43033471 |
| 112 | पनोलोजिक टेक्नोलोजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2011PTC028841 | G43020601 |
| 113 | वाइनोट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2011PTC029202 | G43013184 |
| 114 | लेवितास लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड | U63090KL2011PTC029397 | G43001510 |
| 115 | जेम्मेड गोल्ड सुपर मार्केट लिमिटेड | U51398KL2010PLC026880 | G43000546 |
| 116 | लीव फॉर टुमारो हेल्थ होलिडेस प्राइवेट लिमिटेड | U85100KL2008PTC022651 | G42989665 |
| 117 | न्यू एज न्यूज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | U64200KL2008PTC022895 | G42981878 |
| 118 | सोलमेट फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड | U74140KL2009PTC025159 | G42974923 |
| 119 | अब्सल फारमा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड | U52310KL2009PTC024337 | G42957407 |
| 120 | फास्टट्रेक इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड | U67120KL1995PTC008799 | G42925404 |
| 121 | ग्रीन टच सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2011PTC029888 | G42880500 |
| 122 | नेयती इन्फोसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड | U74140KL2009PTC024721 | G42863324 |
| 123 | गुरुतमा इन्फोसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड | U74990KL2009PTC025265 | G42862532 |
| 124 | विनस्टोक सेक्यूरिटीस एंड सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड | U67120KL2006PTC019724 | G42807222 |
| 125 | माधव फार्मास्युटिकल लेबरटरीस प्राइवेट लिमिटेड | U85195KL1995PTC008616 | G42775569 |
| 126 | बीएनक्यू इवेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड | U74900KL2010PTC026713 | G42725572 |
| 127 | एष्टा क्राउन बिल्डर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | U45200KL2010PTC026320 | G42674614 |
| 128 | मलनाडु बिल्डर्स & डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड | U70100KL2011PTC028550 | G42630954 |
| 129 | केशवम रीजेंसी प्राइवेट लिमिटेड | U55101PT2011PTC028379 | G42627232 |
| 130 | अनबास स्कूल ऑफ योगा प्राइवेट लिमिटेड | U63040KL2006PTC020032 | G42626267 |
| 131 | कोर्निच टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2006PTC020028 | G42603316 |
| 132 | नूमेनक्राफ्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2008PTC022758 | G42589515 |
| 133 | एक्सकोलो सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड | U74140KL2010PTC027324 | G42547463 |
| 134 | आषाडम रीजेन्सी होटल प्राइवेट लिमिटेड | U55101KL2011PTC028981 | G42518365 |
| 135 | केशवा फार्मिंग एंड एगर्स सर्वीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | U01403KL2007PTC021411 | G42507137 |
| 136 | पीबीएस डिजिटल मीडिया&पेमेंट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड | U74900KL2011PTC028459 | G42424234 |
| 137 | विनसाप फूड्स प्राइवेट लिमिटेड | U15400KL2012PTC031850 | G42422055 |
| 138 | ओपलाइस मार्केटिंग सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | U51900KL2011PTC028233 | G42419663 |
| 139 | पल्लावूर बैडमिंटन क्लब प्राइवेट लिमिटेड | U91990KL2014PTC037060 | G42419135 |
| 140 | अमल ग्रीन बायो एनर्जीस प्राइवेट लिमिटेड | U90000KL2008PTC021915 | G42418756 |
| 141 | इकाया बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड | U45200KL2011PTC029149 | G42417899 |
| 142 | हिमा एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड | U51900KL2011PTC029623 | G42334888 |

| क्रमांक | कंपनी का नाम | सी आई एन | एस आर एन |
|---------|--|-----------------------|-----------|
| 143 | कुट्टीचाक्कु कंसल्टंसी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड | U74140KL2015PTC038517 | G42324681 |
| 144 | भद्रासना कुरीस प्राइवेट लिमिटेड | U65992KL2001PTC015062 | G42324129 |
| 145 | रेस & ह्यूस अनिमेशन एंड टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड | U72900KL2008PTC022889 | G42322974 |
| 146 | सुरलता चिट्स प्राइवेट लिमिटेड | U65992KL2015PTC038740 | G42309146 |
| 147 | जे एस मेनेजमेंट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड | U74140KL2008PTC022235 | G42307967 |
| 148 | ओआईसीएसआर सोशियल कंसल्टंसी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड | U74140KL2010PTC027156 | G42263608 |
| 149 | सख्यम टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2011PTC027831 | G42255711 |
| 150 | मरहबा प्रवासी ज्वैलरी लिमिटेड | U52393KL2011PLC028487 | G42208041 |
| 151 | होमेक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | U45200KL2010PTC026451 | G42199273 |
| 152 | हमारा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड | U15440KL2002PTC015337 | G42184648 |
| 153 | रिलाक्स हर्बल्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | U51397KL1998PTC012289 | G42181602 |
| 154 | अमोरिट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2010PTC027312 | G42179127 |
| 155 | मयूखम प्रॉपर्टी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड | U45200KL2011PTC029792 | G42120998 |
| 156 | होटमेल्ट आलोजस प्राइवेट लिमिटेड | U27106KL1995PTC009574 | G42005199 |
| 157 | इंडेक्स कम्यूनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड | U64202KL2002PTC015695 | G42003475 |
| 158 | दीपेश चिट्स प्राइवेट लिमिटेड | U65992KL2014PTC036951 | G41945031 |
| 159 | कोर्बिजित सर्वीसेस एंड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2011PTC029118 | G41881699 |
| 160 | कंसन्ट ओवरसीस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड | U65993KL1993PTC006955 | G41784901 |
| 161 | मलाबार कलर इमेज सेट्टर प्राइवेट लिमिटेड | U72300KL2003PTC016043 | G41730383 |
| 162 | लक्षद्वीप टूरर्स एंड ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड | U63040LD2009PTC019307 | G41670027 |
| 163 | एम्नो फर्म्स प्राइवेट लिमिटेड | U01300KL2010PTC027229 | G41669896 |
| 164 | नियोइंफ्रा वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | U74900KL2009PTC025094 | G41667650 |
| 165 | एचआरजे लोजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड | U63090KL2011PTC028211 | G41659798 |
| 166 | प्रकृति लेबोरेटरीस प्राइवेट लिमिटेड | U73100KL2013PTC035537 | G41633249 |
| 167 | एयरकोम टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | U64203KL2009PTC023968 | G41580416 |
| 168 | जीएलएफ सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड | U67190KL2013PTC035455 | G41564832 |
| 169 | एसटीएमए इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड | U45200KL2010PTC026044 | G41560467 |
| 170 | जेएमजे फोरेन एक्सचेंज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | U74999KL2009PTC024271 | G41556333 |
| 171 | हैलोग्लोबल मीडिया कम्यूनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड | U92130KL2010PTC026875 | G41464140 |
| 172 | माया कलर प्रिंटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | U22110KL2011PTC028480 | G41446287 |
| 173 | आमगोप एक्सपोर्ट्स & इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | U51505KL2011PTC027715 | G41445081 |
| 174 | वे लैंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड | U45201KL2005PTC018186 | G41305822 |
| 175 | एसजीएस होलिडेस प्राइवेट लिमिटेड | U63040KL2010PTC026412 | G41224783 |
| 176 | सिल्वरवेल्स होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | U55101KL2010PTC026443 | G41180175 |
| 177 | श्री वडक्कुमनाथन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड | U65992KL2000PTC013929 | G41138967 |
| 178 | एस्ट्रल वाचेस लिमिटेड | U33301KL1978SGC002956 | G41125758 |
| 179 | फार्म सुसन्ने प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड | U15100KL2015PTC039264 | G41100801 |
| 180 | पारातोलिल एक्सपोर्टिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | U51215KL2002PTC015203 | G40877409 |
| 181 | विगर पोर्टफोलियोस प्राइवेट लिमिटेड | U65993KL1990PTC005618 | G40830317 |
| 182 | ए वन फिशरीस प्राइवेट लिमिटेड | U51223KL2009PTC024834 | G40824625 |
| 183 | एशियाटिक मेडिकल एंड इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | U29199KL2003PTC016114 | G40800997 |
| 184 | फिनाटिस इन्फ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड | U45200KL2016PTC040212 | G40793002 |
| 185 | ह्यूमनफेयर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड | U52599KL2005PLC019010 | G40789638 |
| 186 | आईओक्लिक ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2013PTC035035 | G40779464 |

| क्रमांक | कंपनी का नाम | सी आई एन | एस आर एन |
|---------|--|-----------------------|-----------|
| 187 | फ्रूडे वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड | U72200KL2012FTC030312 | G40779159 |
| 188 | अनंतापुरी गोटाफार्म प्राइवेट लिमिटेड | U01212KL1995PTC009445 | G40768442 |
| 189 | विश्वामित्र प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड | U70100KL2013PTC034733 | G40766891 |
| 190 | हेप्टोन फार्मास्युटिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | U24233KL2009PTC025238 | G40737231 |
| 191 | अरूप फायर सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड | U74920KL2009PTC024022 | 640736688 |
| 192 | एन जी गोल्ड ओर्नमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड | U36911KL2007PTC020608 | 640721581 |

जी. सी. यादव
कंपनी रजिस्ट्रार
केरल

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi, the 1st April 2019

No. O.II-4000/2014-Pers-DA-6—Consequent on acceptance of resignation by the Competent Authority, Dr. Sonali Bhattacharya, Medical Officer (Asstt. Comdt.) (IRLA-10425) of 241 Bn, CRPF has relinquished the charge of her post in the forenoon of 07/03/2019. Accordingly, her name is deleted from the rolls of the Force w.e.f. 07/03/2019 (FN).

B.S. GUJRAL
DIG (Pers.)

No. O.II-4114/2017-Pers-DA-6—Consequent on expiry of one month's termination notice dated 20/09/2018, which was served upon Dr. Ravi Shankar Prasad, Specialist MO (Gr.II/JS) (Dy. Comdt.), IRLA-11217, Composite Hospital, CRPF, Muzaffarpur on 12/11/2018, his services stand terminated with effect from 11/12/2018 (AN). Accordingly, he has been struck off from the strength of this Force with effect from the same date i.e. 11/12/2018 (AN).

B.S. GUJRAL
DIG (Pers.)

The 5th April 2019

No. A.VI-1/2019-Pers-(A/C)—The President is pleased to provisionally appoint the following selected candidates of CAPF (A/C) Exam-2016 & 2017, conducted by UPSC, as Assistant Commandants in Central Reserve Police Force in Pay Matrix Level-10 in temporary capacity, until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force:—

| S. No. | Roll No. | Name | Date of Reporting |
|----------------------|----------|------------------------------|-------------------|
| CAPF (A/C) EXAM-2016 | | | |
| 1 | 16156 | Atul Nagar | 11-02-2019 (FN) |
| 2 | 0003681 | Azimul Haque | 11-02-2019 (FN) |
| 3 | 0125557 | Tarun Khajuria | 16-02-2019 (FN) |
| 4 | 35272 | Ajitkumar Anna Kshirsagar | 12-02-2019 (FN) |
| 5 | 1284 | Digvijay Singh | 16-02-2019 (FN) |
| 6 | 142235 | Gavali Ganesh Haridas | 14-02-2019 (AN) |
| 7 | 0037187 | Anil Kumar Malleshi Jadhav | 11-02-2019 (FN) |
| 8 | 247288 | Tarang Bansal | 11-02-2019 (FN) |
| 9 | 018877 | Prashasth Balijepally Velugu | 11-02-2019 (AN) |
| 10 | 86024 | Khade Mitesh Arjun | 11-02-2019 (FN) |
| 11 | 001480 | Ms Jangam Geeta Sreeja | 11-02-2019 (AN) |
| 12 | 174871 | Shah Mohd Imran Mohd Irfan | 15-02-2019 (AN) |
| 13 | 145419 | Animesh Kumar Ojha | 11-02-2019 (FN) |
| 14 | 146351 | Bhargav Kumar Thadem | 13-02-2019 (AN) |
| 15 | 0147798 | Mudassr Ali | 11-02-2019 (FN) |
| 16 | 41644 | Durdhawale Vishal Eknath | 23-02-2019 (AN) |
| 17 | 175162 | Vinay Kumar Dubey | 15-03-2019 (AN) |
| CAPF(A/C) EXAM 2017 | | | |
| 18 | 0043830 | Ms.Komalpreet Kaur | 11-02-2019 (FN) |
| 19 | 0139050 | Shehabudeen K.A | 13-02-2019 (AN) |
| 20 | 0002767 | Patil Rupeshsingh Ramesh | 11-02-2019 (FN) |
| 21 | 0047384 | Ms Deepali | 11-02-2019 (FN) |
| 22 | 001281 | Siddharth Singh | 11-02-2019 (FN) |
| 23 | 0191468 | G. Kiran Kumar | 11-02-2019 (FN) |
| 24 | 003410 | Pahare Vishnu Sukhdev | 15-02-2019 (AN) |
| 25 | 0101760 | Rishabh Kumar Sharma | 16-02-2019 (FN) |
| 26 | 0115009 | Vivekanand Prasad | 16-02-2019 (FN) |
| 27 | 0025929 | Ms.Monika Bhatia | 11-02-2019 (FN) |

| | | | |
|----|---------|----------------------------|-----------------|
| 28 | 0001912 | Jitender Kumar Bansal | 12-02-2019 (FN) |
| 29 | 0128237 | Nitheesh N. | 11-02-2019 (FN) |
| 30 | 0077613 | Anshuman Singh | 11-02-2019 (FN) |
| 31 | 0104802 | Allen Augustine | 13-02-2019 (AN) |
| 32 | 0027300 | Bhutada Krishna Madhusudan | 15-02-2019 (FN) |
| 33 | 0005828 | Anand Kumar Yadav | 13-02-2019 (FN) |
| 34 | 0052371 | Yashveer Singh | 11-02-2019 (FN) |
| 35 | 0231722 | Biswajit Sahu | 11-02-2019 (FN) |
| 36 | 0005923 | Ravindra Pratap Singh | 12-02-2019 (AN) |
| 37 | 0270206 | Ankur Kumar | 13-02-2019 (AN) |
| 38 | 0007215 | Navjot Singh | 15-02-2019 (FN) |
| 39 | 0062034 | Satyaketu | 13-02-2019 (AN) |
| 40 | 0134641 | Kamble Vinayak Kashinath | 12-02-2019 (FN) |
| 41 | 253443 | Md. Altab Hussain | 03-03-2019 (AN) |
| 42 | 0262741 | Arjun Lal | 17-03-2019 (AN) |

2. They have reported to CRPF Academy, Kadarpur (Gurgaon) for basic training on the date as mentioned against their names and have taken over the charge of their post on the same date.

B.S. GUJRAL
DIG (Pers.)

DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 27th March 2019

No. E-16013/Dep-IPS/IG/2017/Pers.II/570—Shri Anurag, IPS (TR:1994), IG/CISF who is inducted as Joint Director in CBI has relinquished the charge of the post of Inspector General, CISF HQrs., New Delhi in the afternoon of 26.03.19 in pursuance of MHA O.M. No.I-21023/13/2019-IPS.III dated 18.03.2019.

Sd./- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16013/SDDS-IPS/2013/Pers-II/571—The President is pleased to appoint Shri S Dev Datta Singh, IPS (OR:1998) as Inspector General, Central Industrial Security Force, in the Pay Level-14 in the Pay Matrix on promotion. The officer has assumed the charge of Inspector General (Pers.), CISF HQrs., New Delhi with effect from the forenoon of 27.03.2019.

Sd./- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 29th March 2019

No. E-16015/Notification-Repa./ 2018/Pers.II/610—Consequent upon repatriation from deputation, the following officers have reported at CISF HQrs., New Delhi and taken on the strength of CISF HQrs./Units as shown against their names with effect from the dates mentioned below:—

| S.No. | Name of the Officer (Shri/Smt./Ms.) | Rank | Name of the Department where officer was on deputation | Date from which taken on the strength of CISF | Date on which assumed the charge/Unit |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--|---|---------------------------------------|
| 01 | Suchit Tyagi | Comdt./Exe. | NSG Delhi | 01.11.18 (FN) | 21.01.19 (FN)/ SHEP Salal |
| 02 | Hari Om Gandhi | Sr. Comdt./Exe. | Narcotics Control Bureau | 14.12.18 (FN) | 25.02.19 (FN)/ UCL Jaduguda |
| 03 | Dipak Rai | DC/Exe. | NSG | 01.12.18 (FN) | 05.02.19 (FN)/ NISA Hyderabad |

| S.No. | Name of the Officer (Shri/Smt./Ms.) | Rank | Name of the Department where officer was on deputation | Date from which taken on the strength of CISF | Date on which assumed the charge/Unit |
|-------|-------------------------------------|---------|--|---|---------------------------------------|
| 04 | Viswanathan S | DC/Exe. | NSG | 01.12.18 (FN) | 18.02.19 (FN)/ BCCL Dhanbad |

Sd/- ILLEGIBLE
Director General /CISF

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
(LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 29th March 2019

No. 5/1/2019-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base:2001=100 remained stationary at 307 (three hundred and seven) for the month of February, 2019.

AMRIT LAL JANGID
Deputy Director

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 2nd April 2019

No. AEC-1(1)/19/4272—In partial modification to this Department's notification No. AEC-1(1)/19/2130 dated February 14, 2019, notifying the constitution of the Atomic Energy Commission (AEC), the President is pleased to appoint Dr. Ajit Kumar Mohanty, Director, Bhabha Atomic Research Centre as new Member of AEC with effect from March 27, 2019.

The constitution of the Atomic Energy Commission (AEC) for the remaining period of the year 2019 and/or until further order, would thus be as follows:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Shri K.N. Vyas Secretary to the Government of India Department of Atomic Energy | Chairman (ex-officio) |
| 2. Shri Nripendra Misra Principal Secretary to the Prime Minister | Member |
| 3. Shri Ajit Kumar Doval National Security Advisor | Member |
| 4. Shri Pradeep Kumar Sinha Cabinet Secretary | Member |
| 5. Shri Vijay Keshav Gokhale Foreign Secretary | Member |
| 6. Shri Girish Chandra Murmu Secretary, Department of Expenditure | Member |
| 7. Ms. Sudha Krishnan Secretary to the Government of India | Member for Finance |
| 8. Dr. M.R. Srinivasan Former Chairman, AEC | Member |
| 9. Prof. P. Rama Rao Former Secretary, Dept. of Science & Technology | Member |
| 10. Dr. Anil Kakodkar Former Chairman, AEC | Member |
| 11. Dr. R.B. Grover Emeritus Professor & Former Vice Chancellor Homi Bhabha National Institute | Member |
| 12. Dr. K. Kasturirangan, Former Chairman, Space Commission & Former Member, Planning Commission | Member |

13. Dr. Ajit Kumar Mohanty
Director, Bhabha Atomic Research Centre

Member

ARUN SRIVASTAVA
Secretary to the Atomic Energy Commission

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES)

FORM No. STK-6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of companies under section 248 (2) of the Companies Act, 2013 in respect of :

Pune-411044, the 25th March 2019

No. ROC/CP/STK6/18/2019/77—

| Sr. No. | CIN | Company Name |
|---------|-----------------------|---|
| 1 | U01403PN2000PTC015093 | GLOBAL AERO AGRO & ORCHARDS PRIVATE LIMITED |
| 2 | U15432MH1979PTC021287 | ATLAS CONFECTIONERS PVT LTD |
| 3 | U22300PN2017PTC170649 | SAYALI'S THIRD EYE VISION INDIA PRIVATE LIMITED |
| 4 | U26990PN2016OPC165096 | SUSTAINABLE INFRACON (OPC) PRIVATE LIMITED |
| 5 | U40300PN2015PTC156907 | KING KUBER ENERGY PRIVATE LIMITED |
| 6 | U45200PN2010PTC135311 | BLUEBERRY REALTY PRIVATE LIMITED |
| 7 | U45202MH1996PTC101248 | GOPISONS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
| 8 | U50400PN2016PTC167780 | SHRI PAVITRAM AUTOWORLD PRIVATE LIMITED |
| 9 | U52590PN2017PTC173949 | ALYKAS TRADING & SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 10 | U70102PN2005PLC020342 | FINESSE INFRASTRUCTURE LIMITED |
| 11 | U72200PN2014PTC153525 | KAISER SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 12 | U72200PN2015PTC154587 | INTUIREX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 13 | U72900PN2016PTC157942 | BIZSCRIPT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 14 | U72900PN2016PTC165069 | ISANI NETWORKS PRIVATE LIMITED |
| 15 | U72900PN2017PTC169701 | MUNDY SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED |
| 16 | U74900PN2010PTC137094 | PATLIGRAM TRAINING GROOMING & DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED |
| 17 | U74999PN2016PTC165729 | CABLETIME SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| 18 | U74999PN2016PTC167012 | CALBRANT SERVICES PRIVATE LIMITED |

Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company (ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company, but if/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(2) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above mentioned companies from the Register of Companies.

(3) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned hereabove within thirty days from the date of publication of this notice.

P. S. KHADE
Asst. Registrar of Companies
Maharashtra

FORM No. STK-7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

{Pursuant to sub-Section(5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016}

In the matter of Companies Act, 2013 and in the matter of the following companies

Cochin-682021, the 27th March 2019

No. ROC(K)/S. 248(2)STK-7/850/2019 (No. 851)—This is with respect to this Office's Notice No. 17363 in Form STK-6 dated 27.06.2018 and application (Form STK-2) on various dates and SRN as mentioned below.

Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013, the name of the following companies have been struck off the register of companies and the said companies are dissolved.

| Sl. No. | Company Name | CIN | SRN |
|---------|--|-----------------------|-----------|
| 1. | PANKAJAKASTHURI PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U70100KL2012PTC030876 | G55012934 |
| 2. | LANTRON INDIA PRIVATE LIMITED | U29305KL2013PTC035036 | G55003438 |
| 3. | STAARCARE INSURANCE SERVICES LIMITED | U66030KL2010PLC025352 | G54799135 |
| 4. | LANDIS BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45200KL2014PTC037119 | G54558929 |
| 5. | SUNBUSINESS REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING PRIVATE LIMITED | U31900KL2012PTC031614 | G54362579 |
| 6. | CINEOLA DIGISENS PRIVATE LIMITED | U92120KL2013PTC034101 | G54323217 |
| 7. | 3PLE R BROS. DECORS & PRODUCTION HOUSE COMPANY PRIVATE LIMITED | U74900KL2013PTC035015 | G54301858 |
| 8. | BIRVIN ASSOCIATES PRIVATE LIMITED | U70109KL2014PTC037431 | G54136064 |
| 9. | PETROTREAT SERVICES PRIVATE LIMITED | U11100KL2015PTC038032 | G54100755 |
| 10. | SENSEAURA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900KL2015PTC038109 | G54026042 |
| 11. | HOLDEX PHARMA PRIVATE LIMITED | U24239KL2009PTC023774 | G53713764 |
| 12. | SANTA PHARMA GENERIX PRIVATE LIMITED | U24233KL2008PTC023320 | G53707840 |
| 13. | SPANLECS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900KL2015PTC038277 | G53539235 |
| 14. | ZZIMLIA HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED | U55101KL2008PTC022217 | G53511846 |
| 15. | TRANS WORLD MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED | U51101KL1999PTC013372 | G53422432 |
| 16. | MAXMEDICS PROFESSIONAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74910KL2004PTC017723 | G53338158 |
| 17. | BALCO AIR PRODUCTS PRIVATE LIMITED | U24111KL2011PTC028668 | G53320842 |
| 18. | ART TRADE EXCHANGE PRIVATE LIMITED | U51909KL2013PTC034302 | G53316063 |
| 19. | S2 ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED | U74200KL2012PTC030692 | G53308334 |
| 20. | JACOB S ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | U51505KL2003PTC016155 | G53089199 |
| 21. | DOHA COATINGS AND CONTRACTORS (INDIA) PRIVATE LIMITED | U74990KL2011PTC027658 | G51760346 |
| 22. | S2A HOMES PRIVATE LIMITED | U45200KL2016PTC039846 | G51667939 |
| 23. | THEKKEVEETIL FOOTWEARS PRIVATE LIMITED | U51312KL2010PTC026910 | G51536480 |
| 24. | ACTINDIA MULTI FARM PRIVATE LIMITED | U01400KL2016PTC039934 | G51373322 |
| 25. | GOLDENBROOK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45200KL2013PTC034408 | G50999929 |
| 26. | RESONANCE RESEARCH AND TECHNICAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72200KL2013PTC034488 | G50959089 |
| 27. | HUE & TINT ADVERTISING PRIVATE LIMITED | U74999KL2016PTC045624 | G50558972 |
| 28. | SOLVEECY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | U63040KL2006PTC019206 | G50425677 |
| 29. | KOLKA DECORS AND INTERIORS PRIVATE LIMITED | U74994KL2006PTC019042 | G50366541 |
| 30. | GLOBAL DIVING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U80302KL2014PTC036024 | G50004845 |
| 31. | PRIMERON RETAIL PRIVATE LIMITED | U55101KL2013PTC033771 | G49777519 |
| 32. | DATAFARMERS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72200KL2013PTC035687 | G49713357 |
| 33. | FARADUS SYSTEMS PRIVATE LIMITED | U72200KL2013PTC033039 | G49593403 |
| 34. | SPOTMEDICINE PHARMA PRIVATE LIMITED | U51397KL2015PTC038230 | G49398159 |
| 35. | MARIYAN CHITS PRIVATE LIMITED | U65992KL2012PTC032389 | G49282007 |

| Sl. No. | Company Name | CIN | SRN |
|---------|---|-----------------------|-----------|
| 36. | AMERICAN ENGINEERING PRIVATE LIMITED | U33130KL2004PTC017629 | G49015878 |
| 37. | YAYA FLIX MEDIA PRIVATE LIMITED | U92130KL2016PTC039901 | G48834899 |
| 38. | SRI GANESH MILLS PVT LTD | U36101KL1951PTC001662 | G48789119 |
| 39. | LISPAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED | U24230KL2010PTC025854 | G48656284 |
| 40. | ADATT KURIES PRIVATE LIMITED | U65992KL2006PTC020053 | G48620561 |
| 41. | PAGE 1 TECHNO PRECISION PRIVATE LIMITED (OPC) | U72200KL2014OPC036737 | G48581755 |
| 42. | SATSUMA HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED | U55101KL2013PTC035447 | G48571087 |
| 43. | SAMSAN PROJECTS PRIVATE LIMITED | U74900KL2011PTC027780 | G48487045 |
| 44. | SHARON LANDSCAPERS AND INTERIOR DESIGNERS PRIVATE LIMITED | U74900KL2012PTC033011 | G48452486 |
| 45. | JYOTISHIVAM INDIA PRIVATE LIMITED | U63040KL2013PTC034925 | G48194179 |
| 46. | INNOVISION HUMAN RESOURCE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U80900KL2011PTC027923 | G48107213 |
| 47. | STARALLIANCE DISTRIBUTION (INDIA) PRIVATE LIMITED | U52100KL2009PTC024937 | G48088082 |
| 48. | MARINO INTER TRADES PRIVATE LIMITED | U51900KL2013PTC035559 | G48042626 |
| 49. | OKEBAN SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED | U72200KL2010PTC026203 | G47944277 |
| 50. | RICE AND PULSES TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED | U51211KL2013PTC034538 | G47904230 |
| 51. | INSOUL MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | U74140KL2013PTC033080 | G47836648 |
| 52. | QR PUBLICATIONS PVT LTD | U22110KL1991PTC006119 | G47774526 |
| 53. | CHENNANKARI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES PRIVATE LIMITED | U85110KL2013PTC035600 | G47514179 |
| 54. | VILLA MEDICAL SERVICES PRIVATE LIMITED | U85100KL2015PTC038180 | G47268230 |
| 55. | PIO BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45202KL2008PTC021708 | G47226360 |
| 56. | ARCUS BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45200KL2014PTC036582 | G47099791 |
| 57. | CEEPEES INVENTED PRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED | U31200KL2013PTC033375 | G47026646 |
| 58. | CASTLES & CRIBS VENTURES PRIVATE LIMITED | U74900KL2013PTC035543 | G46614525 |
| 59. | PULARI FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED | U01407KL2016PTC040366 | G46540597 |
| 60. | BRAINZMART CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | U72200KL2014PTC035958 | G46522215 |
| 61. | ATOR LIFTS PRIVATE LIMITED | U52390KL2015PTC037888 | G46488748 |
| 62. | ROYAL NEST HOUSING CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED | U70100KL2013PTC033201 | G46415055 |
| 63. | TRUCID TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72200KL2009PTC024911 | G46313656 |
| 64. | MULLAKKAL REALTORS AND HOSPITALITY PRIVATE LIMITED | U70100KL2008PTC022159 | G46077699 |
| 65. | VALLYARA REALTORS AND HOSPITALITY PRIVATE LIMITED | U70100KL2008PTC022080 | G46074415 |
| 66. | KOTTAMAM REALTORS AND HOSPITALITY PRIVATE LIMITED | U70100KL2008PTC022238 | G46073722 |
| 67. | KODUVALLY REALTORS AND HOSPITALITY PRIVATE LIMITED | U70100KL2008PTC022156 | G46073110 |
| 68. | KATTITHARA REALTORS AND HOSPITALITY PRIVATE LIMITED | U70100KL2008PTC022157 | G46072062 |
| 69. | PVVP QUASAR TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED | U63040KL2005PTC018732 | G46043980 |
| 70. | H2T HEALTH INFO PRIVATE LIMITED | U85190KL2011PTC030026 | G45789609 |
| 71. | PROPUS GEO CONSULTING PRIVATE LIMITED | U74990KL2013PTC033160 | G45787868 |
| 72. | SHREE RAJ MARKET SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED | U51909KL2009PTC023724 | G45596699 |
| 73. | MIDWAY MARKETING CORPORATION INDIA PRIVATE LIMITED | U51395KL2013PTC034420 | G45513264 |

| Sl. No. | Company Name | CIN | SRN |
|---------|--|-----------------------|-----------|
| 74. | MANJU MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED | U52335KL2007PTC020199 | G45473436 |
| 75. | ADALIZ TECHNO LABS PRIVATE LIMITED | U72200KL2014PTC037296 | G45328911 |
| 76. | POWERDOT COMPUTER SERVICES AND EXPORTS PRIVATE LIMITED | U72200KL1996PTC010315 | G45258241 |
| 77. | PALLICKAMALIL BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45201KL2008PTC022588 | G45193844 |
| 78. | LICIT CHITS PRIVATE LIMITED | U65992KL2011PTC028242 | G45098118 |
| 79. | RITE CHOICE SUPER STORES PRIVATE LIMITED | U51390KL2007PTC021284 | G45073202 |
| 80. | ORCHID POWER CONVERSIONS PRIVATE LIMITED | U51505KL2001PTC014545 | G44927325 |
| 81. | ROOSTER TRADERS PRIVATE LIMITED | U51900KL2011PTC029947 | G44902526 |
| 82. | NANDANAM CHITS PRIVATE LIMITED | U65992KL2004PTC017703 | G44717502 |
| 83. | INASSAI SYSTEMS PRIVATE LIMITED | U72200KL2013PTC034637 | G44581510 |
| 84. | HYLAND AGRO FARMS PRIVATE LIMITED | U01407KL2013PTC035048 | G44543486 |
| 85. | ATLAS STATIONERY INDIA PRIVATE LIMITED | U21000KL2012FTC031120 | G44431351 |
| 86. | COMMUNITY ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED | U29211KL2000PTC014320 | G44216869 |
| 87. | COMPLETE COMPUTER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72200KL1999PTC013149 | G44125391 |
| 88. | KODUVAYUR HOTELS PRIVATE LIMITED | U55101KL2007PTC021545 | G43988526 |
| 89. | AAHAR CATERING SERVICES PRIVATE LIMITED | U55204KL2013PTC033944 | G43985381 |
| 90. | HARMYA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U45200KL2013PTC034570 | G43917103 |
| 91. | STRAIGHTLINE HR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | U74910KL2012PTC031300 | G43831130 |
| 92. | NETWORKED BILLBOARDS & MEDIA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U74300KL2012PTC032782 | G43792399 |
| 93. | MAGIKSTROKZ INFOTAINMENT PRIVATE LIMITED | U72900KL2012PTC030212 | G43783224 |
| 94. | CULVERIN INFOTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72200KL2011PTC030127 | G43588714 |
| 95. | HOLIDAY KONOORAN COMMERCIAL COMPLEX PRIVATE LIMITED | U45200KL2013PTC035139 | G43485945 |
| 96. | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900KL2014PTC036652 | G43473537 |
| 97. | VERITAE SENSOR TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | U32109KL2012PTC032778 | G43465798 |
| 98. | CODENOID TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72200KL2013PTC033718 | G43400910 |
| 99. | ABJO PLASTICS PVT LTD | U25209KL1994PTC008120 | G43400605 |
| 100. | ACCUFEST BILLING AND CUSTOMER SERVICES PRIVATE LIMITED | U74900KL2009PTC025266 | G43287903 |
| 101. | AL MERSAL CONTRACTING PRIVATE LIMITED | U70100KL2012PTC032729 | G43282722 |
| 102. | KERALA EDUCATIONAL VENTURES LIMITED | U80301KL2011PLC029264 | G43280775 |
| 103. | HARITHAGIRI TOURISMS INDIA LIMITED | U63040KL1998PLC012651 | G43280213 |
| 104. | CTOC HAULWELL SHIPPING PRIVATE LIMITED | U63090KL2007PTC020676 | G43277789 |
| 105. | ROYAL TENS TRADING PRIVATE LIMITED | U52322KL2005PTC018248 | G43245836 |
| 106. | PENTA CARTONS PVT LTD | U21022KL1988PTC005145 | G43163682 |
| 107. | IDEA TOURISM AND VOYAGES PRIVATE LIMITED | U63040KL2011PTC029960 | G43085257 |
| 108. | FREEMANWHITE HEALTHCARE DESIGN INDIA PRIVATE LIMITED | U72200KL2001PTC014777 | G43083039 |
| 109. | REBARLOGIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900KL2016PTC039980 | G43049642 |
| 110. | ADVAMED TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U51397KL2012PTC031897 | G43041805 |
| 111. | MATHEW PHILIP CONSULTANTS & TOUR OPERATORS PRIVATE LIMITED | U74140KL2009PTC023850 | G43033471 |
| 112. | PANOLOGIC TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED | U72200KL2011PTC028841 | G43020601 |
| 113. | YNOT SOFTWARE SYSTEMS PRIVATE LIMITED | U72200KL2011PTC029202 | G43013184 |
| 114. | LEVITAS LOGISTICS PRIVATE LIMITED | U63090KL2011PTC029397 | G43001510 |
| 115. | GEMMED GOLD SUPER MARKET LIMITED | U51398KL2010PLC026880 | G43000546 |
| 116. | LIVE 4 TOMORROW HEALTHY HOLIDAYS PRIVATE LIMITED | U85100KL2008PTC022651 | G42989665 |

| Sl. No. | Company Name | CIN | SRN |
|---------|--|-----------------------|-----------|
| 117. | NEW AGE NEWS INDIA PRIVATE LIMITED | U64200KL2008PTC022895 | G42981878 |
| 118. | SOULMATE FACILITY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | U74140KL2009PTC025159 | G42974923 |
| 119. | ABSAL PHARMA MARKETING PRIVATE LIMITED | U52310KL2009PTC024337 | G42957407 |
| 120. | FASTRAK INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U67120KL1995PTC008799 | G42925404 |
| 121. | GREEN TOUCH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72200KL2011PTC029888 | G42880500 |
| 122. | NEYATI INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74140KL2009PTC024721 | G42863324 |
| 123. | GURUTAMA INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74990KL2009PTC025265 | G42862532 |
| 124. | WINSTOCK SECURITIES AND SERVICES PRIVATE LIMITED | U67120KL2006PTC019724 | G42807222 |
| 125. | MADHAVA PHARMACEUTICAL LABORATORIES PVT LTD | U85195KL1995PTC008616 | G42775569 |
| 126. | BNQ EVENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | U74900KL2010PTC026713 | G42725572 |
| 127. | ESHTA CROWN BUILDERS (INDIA) PRIVATE LIMITED | U45200KL2010PTC026320 | G42674614 |
| 128. | MALANADU BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70100KL2011PTC028550 | G42630954 |
| 129. | KESAVAM REGENCY PRIVATE LIMITED | U55101KL2011PTC028379 | G42627232 |
| 130. | ANABAS SCHOOL OF YOGA PRIVATE LIMITED | U63040KL2006PTC020032 | G42626267 |
| 131. | CORNICHE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72200KL2006PTC020028 | G42603316 |
| 132. | NUMENKRAFT SYSTEMS PRIVATE LIMITED. | U72200KL2008PTC022758 | G42589515 |
| 133. | EXCOLO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74140KL2010PTC027324 | G42547463 |
| 134. | ASHADOM REGENCY HOTEL PRIVATE LIMITED | U55101KL2011PTC028981 | G42518365 |
| 135. | KESHAVA FARMING AND AGRO SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED | U01403KL2007PTC021411 | G42507137 |
| 136. | PBS DIGITAL MEDIA & PAYMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74900KL2011PTC028459 | G42424234 |
| 137. | VINSAP FOODS PRIVATE LIMITED | U15400KL2012PTC031850 | G42422055 |
| 138. | OPALIZE MARKETING SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED | U51900KL2011PTC028233 | G42419663 |
| 139. | PALLAVUR BADMINTON CLUB PRIVATE LIMITED | U91990KL2014PTC037060 | G42419135 |
| 140. | AMAL GREEN BIO- ENERGIES PRIVATE LIMITED | U90000KL2008PTC021915 | G42418756 |
| 141. | IKAYA BUILDERS AND TRADERS PRIVATE LIMITED | U45200KL2011PTC029149 | G42417899 |
| 142. | HIMA EXIM PRIVATE LIMITED | U51900KL2011PTC029623 | G42334888 |
| 143. | KUTTICHAKKU CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED | U74140KL2015PTC038517 | G42324681 |
| 144. | BHADRASANA KURIES PRIVATE LIMITED | U65992KL2001PTC015062 | G42324129 |
| 145. | RAYS & HUES ANIMATIONS AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900KL2008PTC022889 | G42322974 |
| 146. | SURALATHA CHITS PRIVATE LIMITED | U65992KL2015PTC038740 | G42309146 |
| 147. | J S MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74140KL2008PTC022235 | G42307967 |
| 148. | OICSR SOCIAL CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED | U74140KL2010PTC027156 | G42263608 |
| 149. | SAKHYAM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72200KL2011PTC027831 | G42255711 |
| 150. | MARHABA PRAVASI JEWELLERY LIMITED | U52393KL2011PLC028487 | G42208041 |
| 151. | HOMEX BUILDERS AND DEVELOPERS (INDIA) PRIVATE LIMITED | U45200KL2010PTC026451 | G42199273 |
| 152. | HAMARA FOODS PRIVATE LIMITED | U15440KL2002PTC015337 | G42184648 |
| 153. | RELAX HERBALS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED | U51397KL1998PTC012289 | G42181602 |
| 154. | AMOREIT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72200KL2010PTC027312 | G42179127 |
| 155. | MAYOOKHAM PROPERTY DEVELOPERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED | U45200KL2011PTC029792 | G42120998 |
| 156. | HOTMELT ALLOYS PRIVATE LIMITED | U27106KL1995PTC009574 | G42005199 |
| 157. | INDEX COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED | U64202KL2002PTC015695 | G42003475 |

| Sl. No. | Company Name | CIN | SRN |
|---------|---|-----------------------|-----------|
| 158. | DEEPESH CHITS PRIVATE LIMITED | U65992KL2014PTC036951 | G41945031 |
| 159. | CORBIZTE SERVICES AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72200KL2011PTC029118 | G41881699 |
| 160. | CONSENT OVERSEAS INVESTMENTS PVT LTD | U65993KL1993PTC006955 | G41784901 |
| 161. | MALABAR COLOR IMAGE SETTER PRIVATE LIMITED | U72300KL2003PTC016043 | G41730383 |
| 162. | LAKSHADWEEP TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED | U63040LD2009PTC019307 | G41670027 |
| 163. | EMRO FARMS PRIVATE LIMITED | U01300KL2010PTC027229 | G41669896 |
| 164. | NEOINFRA VENTURES (INDIA) PRIVATE LIMITED | U74900KL2009PTC025094 | G41667650 |
| 165. | HRJ LOGISTICS AND WAREHOUSING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U63090KL2011PTC028211 | G41659798 |
| 166. | PRAKRUTHI LABORATORIES PRIVATE LIMITED | U73100KL2013PTC035537 | G41633249 |
| 167. | AIRCOM TELECOM PROJECTS PRIVATE LIMITED | U64203KL2009PTC023968 | G41580416 |
| 168. | G L F SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U67190KL2013PTC035455 | G41564832 |
| 169. | STMA ENGINEERS PRIVATE LIMITED | U45200KL2010PTC026044 | G41560467 |
| 170. | JMJ FOREIGN XCHANGE COMPANY PRIVATE LIMITED | U74999KL2009PTC024271 | G41556333 |
| 171. | HELLOGLOBAL MEDIA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED | U92130KL2010PTC026875 | G41464140 |
| 172. | MAYA COLOUR PRINTERS INDIA PRIVATE LIMITED | U22110KL2011PTC028480 | G41446287 |
| 173. | AMGOP EXPORTS & IMPORTS PRIVATE LIMITED | U51505KL2011PTC027715 | G41445081 |
| 174. | WAY LAND BUILDERS PRIVATE LIMITED | U45201KL2005PTC018186 | G41305822 |
| 175. | SGS HOLIDAYS PRIVATE LIMITED | U63040KL2010PTC026412 | G41224783 |
| 176. | SILVERWAVES HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED | U55101KL2010PTC026443 | G41180175 |
| 177. | SREE VADAKKUMNATHAN CHITS PRIVATE LIMITED | U65992KL2000PTC013929 | G41138967 |
| 178. | ASTRAL WATCHES LTD | U33301KL1978SGC002956 | G41125758 |
| 179. | FARM SUZZANNE PROCESSING PRIVATE LIMITED | U15100KL2015PTC039264 | G41100801 |
| 180. | PARATHOLIL EXPORTING COMPANY PRIVATE LIMITED | U51215KL2002PTC015203 | G40877409 |
| 181. | VIGOR PORTFOLIOS PVT LTD | U65993KL1990PTC005618 | G40830317 |
| 182. | A-ONE FISHERIES PRIVATE LIMITED | U51223KL2009PTC024834 | G40824625 |
| 183. | ASIATIC MEDICAL AND ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED | U29199KL2003PTC016114 | G40800997 |
| 184. | FINATIS INFRA VENTURES PRIVATE LIMITED | U45200KL2016PTC040212 | G40793002 |
| 185. | HUMANFARE TRADING COMPANY LIMITED | U52599KL2005PLC019010 | G40789638 |
| 186. | IOCLICK ONLINE PRIVATE LIMITED | U72200KL2013PTC035035 | G40779464 |
| 187. | FROODAY VENTURES PRIVATE LIMITED | U72200KL2012FTC030312 | G40779159 |
| 188. | ANANTHAPURI GOAT FARM PRIVATE LIMITED | U01212KL1995PTC009445 | G40768442 |
| 189. | VISHVAMITRA PROMOTERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | U70100KL2013PTC034733 | G40766891 |
| 190. | HEPTON PHARMACEUTICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED | U24233KL2009PTC025238 | G40737231 |
| 191. | AROOP FIRE SAFETY SYSTEMS PRIVATE LIMITED | U74920KL2009PTC024022 | G40736688 |
| 192. | NG GOLD ORNAMENTS PRIVATE LIMITED | U36911KL2007PTC020608 | G40721581 |

G. C. YADAV
Registrar of Companies
Kerala